

## कॉचिंगिन्ड (ब्लोकोमा) पाया है ?

यह एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण अंधत्व आता है। यह दुनिया में अधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसी को कालामोतिया, कालापानी भी कहते हैं। कॉचिंगिन्ड में आँख के ऑप्टिक नर्व एवं रेटिना की संवेदनशीलता घटने के कारण धीरे-धीरे दृष्टि क्षेत्र किनारों की ओर कम होने लगता है। अगर इलाज ना हुआ तो आखिर दृष्टि में स्थायी रूप से अंधापन हो जाता है। और दृष्टि वापर नहीं आ सकती।

## ब्लोकोमा किसे कहते हैं ?

ब्लोकोमा किसी को भी हो सकता है। यह सभी प्रकार के लोग, जाती, उम्र, लिंग एवं वर्ष को हो सकता है।

## ब्लोकोमा प्रेरक कारण

- ज्यादातर यह 40 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति में पाया जाता है।
- परिवार में किसी व्यक्ति में ब्लोकोमा पाया जाना।
- मायोपिया (दूरदृष्टि दोष) ■ मधुमेह, हायपरटेन्शन

ब्लोकोमा विशेषज्ञ डाक्टर से आँख की जाँच करवाने से ही दस बीमारी का निदान समय पर किया जा सकता है।

## ब्लोकोग्ना के निशान

यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को लंबे समय तक नजर की कमजोरी पता ही नहीं चलती। क्योंकि इसमें पहले दृष्टि क्षेत्र प्रभावित होता है। जब यह बहुत बढ़ जाती है। और बहुत ज्यादा नजर कमजोर करती है तभी मरीज को पता चलता है। इसीलिए हमेशा जाँच कराते रहना ही इसका उत्तम उपाय है। लंबे समय तक रहने पर एवं बहुत ज्यादा कॉचिंगिन्ड होने पर व्यक्ति को नजदीक वाली वस्तुओं को देखने में दिक्षिण होती है, जबकि सामने की नजर अच्छी होती है। कभी-कभी वस्तु के नंबर में बहुत जल्दी फ़र्क आने लगता है। आवश्युक ब्लोकोमा में व्यक्ति को आँख में अंधानक दर्द होना, आँख लाल रहना, नजर कमजोर होना ये लक्षण होते हैं।

## आप भी परामर्श ले सकते हैं अगर

- आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है।
- आपको शक्ति की बीमारी है (मधुमेह)
- आपको ब्लड प्रेशर रहता है।
- आपको सिरदर्द होता है।
- परिवार में किसी को कॉचिंगिन्ड है।
- दूर एवं निकट दृष्टिदोष।
- पूर्व दृष्टनाशस्त आँख।
- पूर्व लंबे समय से स्टीरोइड का सेवन।

प्रकाशमय दुनिया का लुपत लेने के लिए कॉचिंगिन्ड को खाली न छलने देये।



**चोइथराम नेत्रालय**


श्रीराम तलाकली, धार रोड, इंदौर-453 001

फोन : 0731-2904570, 89895 04718, 89895 04715

वेब साईट : [www.choithramnetralaya.com](http://www.choithramnetralaya.com), ई-मेल : [choithram\\_netralaya@yahoo.co.in](mailto:choithram_netralaya@yahoo.co.in)

फैसलव : Choithram Netralaya, Indore

नियन्त्रित दृष्टि के लिए विशेषज्ञ डॉ. अमिता पोखराल द्वारा की जाएगी।



# कॉचिंगिन्ड/काला मोतिया परीक्षण शिविर

कॉचिंगिन्ड के मरीज एवं उनके परिवार के सदस्य के लिए

**6 मार्च, 2013**

सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

**चोईथराम विलिनिक**

अन्नपूर्णा रोड, इंदौर

**पंजीयन शुल्क**

**₹ 50 अनिवार्य**

जाँच चोईथराम नेत्रालय के वरिष्ठ कॉचिंगिन्ड नेत्र विशेषज्ञ डॉ. अमिता पोखराल द्वारा की जाएगी।

— पंजीयन हेतु सम्पर्क करें —

**चोईथराम विलिनिक**

अन्नपूर्णा रोड, इंदौर, फोन : 0731-40078660, 61, 62, 63